### INDIA LEASE DEVELOPMENT LIMITED Read Office: MGF House, 4/17-B,

Asaf Ali Road, New Delhi - 110002

Phone

011-41520070 011-41503479

Fax No. : Website: F-mail

www.indialease.com info@indialease.com

CIN

L74899DL1984PLC019218

07AAACI0149R1ZB **GSTIN** 

#### NOTICE OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of India Lease Development Limited is scheduled to be held on Wednesday, the September 27, 2023 at 12.30 P.M. at the Registered Office i.e. MGF House, 4/17-B, Asaf Ali Road, New Delhi-110002 through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") without the physical presence of Members at a common venue to transact the business, as set out in the Notice of 38th Annual General Meeting.

In accordance with the various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) latest being 28th December, 2022 and circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) dated 5th January, 2023, the Company has completed dispatch of Notice of the 38th AGM and Annual Report of the Company, interalia, containing the financial statements and other statutory reports for the year ended 31st March, 2023 on 4th September, 2023 through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company/RTA/DP

The aforesaid documents are available on the website of the Company i.e. www.indialease.com under the "Annual Reports" section (https://www.indialease.com/AnnualReports22-23New.html) and the website of the Stock Exchange, where the shares of the Company is listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and also on the website of the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of AGM. Members participating through the VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. The facility for appointment of Proxies by the Members will not be available since the AGM is being held by VC/OAVM.

#### VOTING THROUGH ELECTRONIC MODE:

The Company is providing the facility of remote e-voting to its members in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the company has appointed CDSL to facilitate voting through electronic means, Accordingly, the facility of casting votes by a member using remote e-voting system before the AGM and e-voting during the AGM will be provided by CDSL. The remote e-voting facility would be available during the following period:

- The remote e-voting will commence on Sunday, September 24, 2023 at 09.00 a.m. and will end on 1. Tuesday, September 26, 2023 at 05.00 p.m. Remote e-voting shall not be allowed beyond 05.00 p.m. on September 26, 2023 and once vote on a resolution has been cast by Member, the Member will not be allowed to change it subsequently.
- Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM through 2. VC/OAVM but are not entitled to cast their vote again. Members who have not cast their vote through remote e-voting and are present in the AGM through VC/OAVM shall be eligible to vote through e-voting at the AGM.
- Members whose names appear in the Register of Members or in the register of beneficial owners, 3 maintained by the Depositories as on the "cut-off date" i.e. Wednesday, September 20, 2023 shall only be entitled to avail of the remote e-voting facility or vote as the case may be at the AGM. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 20, 2023.

Members who are holding shares in physical form are requested to get their email addresses registered with the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) by sending an email at rta@alankit.com.

#### **BOOK CLOSURE**

Further pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 &-Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from Thursday, September 21, 2023 to Wednesday, September 27, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

The procedure for e-Voting is available in the notes of Notice of the 38th AGM as well as in the email sent to the Members. Queries/grievances, if any, with regard to e-voting, may be addressed through email at helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533

By Order of the Board

r India Lase Development Limited

Manager, Company Secretary, Compliance Officer & CFO

ACS - 13636

Place: New Delhi

Date: September 4, 2023

### SKYWEB INFOTECH LIMITED

CIN: L72200DL1985PLC019763 Registered Office: K-20, 2nd Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110 024 Corporate Office: D-348, Sector-63, Noida, Uttar Pradesh - 201 307

Website: www.skywebindia.in | E-mail ID: info@skywebindia.com | Ph. No. 011-29840906 NOTICE Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on Thursday, the 28th Day of September, 2023 at 01:00 P.M at K-20, 2th

Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110 024. n compliance with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021 21/2021 and 02/2022 dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021 December 08, 2021, December 14, 2021 and May 05, 2022 respectively, followed by Circula Nos. 10/2022 and 11/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), electronic copies of the Notice of AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23 have been e-mailed to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company/RTA/Depository Participants. The e-mailing of Notice of AGM have been completed on 05th September, 2023 in conformity with regulatory requirements.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Managemen and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing facility for remote e-Voting through Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") through its website www.evotingindia.com to enable the members to cast their vote electronically

The remote e-Voting period will commence from Monday, 25th September, 2023 at 9:00 A.M. (IST) and will end on Wednesday, 27th September, 2023 at 5:00 P.M. (IST), after which remote e-Voting will be blocked by CDSL. A member may participate in the general meeting even after exercising his/her right to vote through remote e-Voting but shall not be entitled to vote again in the meeting. The members present at the meeting, having not exercised their vote by e-Voting or ballot shall be entitled to vote by means of poll.

Shareholders, whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. 21st September, 2023 shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting.

Shareholders who have acquired shares and become member of the Company after the dispatch of notice may obtain the login ID and password by sending an e-mail to CDSL at helpdesk.evoting@cdslindia.com or may contact at 022-23058738, 022-23058543/42. The said e-mail and numbers can also be contacted to address the grievances connected with facility for e-Voting

The Notice of AGM along with the e-Voting instructions and Annual Report for the Financial Year 2022-23 is also available on the website of the Company a www.skywebindia.in and on the website of the Stock Exchange i.e. www.msei.in and on CDSL's website at www.evotingindia.com

> For Skyweb Infotech Limited Company Secretary & Compliance Officer

By Order of the Board

### **MAXPLUS LOGISTICS LIMITED**

(Formerly known as MC-Stitch Limited) CIN: L65999DL1985PLC022321 Regd. Office: 1, Community Centre, East of Kailash, New Delhi 110 065

Website: www.maxpluslogisticslimited.com INFORMATION REGARDING 38<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING TO

Tel.011-49057869, Email: mcstitch.excom@gmail.com

BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM), REMOTE E-VOTING Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting (AGM) of the Company

scheduled to be held on Saturday, 30th September, 2023 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) only to transact the business as set out in the Notice of the AGM. In accordance with General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs bearing No. 10/2022 dated December 28, 2022 read with Circular No. 2/2022 dated 5th May, 2022, Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020, Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021, Circular No. 19/2021 dated 8th December, 2021, and Jircular No. 21/2021 dated 14" December 2021, allowing conducting of AGM throug Video conferencing (VC) or other Audio-Visual Means (OVAM) without the physical Presence of the member of the meeting at a common venue. Members will be able to attend the AGM through VC/ OAVM facility only. Members participating through the VC/ OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circular, the Notice of AGM and the Annual Report 2022-

23 including the financial statements for the financial year 2022-23, along with Directors Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, will be sent only by email to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/ Depositary Participant(s). The aforesaid documents wil also be made available on the website of the Company i.e. www.maxpluslogisticslimited.com and the websites of the stock exchanges where the shares of the Company are listed i.e. www.msei.in as well as on the website of National Securities Depository Limited i.e. www.evoting.nsdl.com The members holding shares as on September 23rd, 2023 including those who will not

receive electronic copy of the annual report due to non-availability of their email address with the company can exercise their right to vote by following the instructions that will be given in the AGM notice.

Manner of casting vote(s) through e-voting

(RTA) of the Company at rdua@rcmcdelhi.com.

Date: 05.09.2023

Place: New Delhi

a. Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ('e-voting') **b.** The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in

dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM The facility for e-voting will also be made available at AGM and Members attending

the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM d. The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to members through email. e. The same login credential may also be used for attending the AGM through VC

In case you have not registered your e-mail address with the Company/ Depository, please follow below instructions for obtaining the Annual Report and login-in details for joining


the AGM/ exercising e-voting facility: a) Physical holding: please send scan copy of a signed request letter mentioning your Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back) PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card), by email to the Company's email address at mcstitch.excom@gmail.con or to the email id of RCMC Share Registry Pvt Ltd- Registrar & Share Transfer Agen

b) Demat holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your e mail address in your demat account, as per the process advised by your DP. **c)** Company is not declaring any dividend.

d) Shareholders holding shares in the physical form are required to convert their holding in DEMAT form as transfer of shares in physical form has been prohibited by the SEBI Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting during the AGM.

For and behalf of the Board Maxplus Logistics Limited

Place: New Delhi Date: 04.09.2023 Sanjeev Chandra Director & CEO DIN: 0009556



### **John Oaky and Mohan Ltd** CIN: L15549DL1962PLC003726

Regd. office: Office No 4 FF, CSC, Pocket E Market, Mayur Vihar Phase 2 Delhi 110091

E mail: oakeymohan@gmail.com Websie: www.oakeymohan.in Phone: 0120 -2657298

### NOTICE OF THE 61st ANNUAL GENERAL MEETING, **E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that the 61st Annual General Meeting (AGM) of the members of John Oakey and Mohan Limited (the 'Company') will be held on Saturday, September 30 2023 at 3:00 p.m. IST through Video Conferencing(VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set forth in the Notice calling 61st AGM, in due compliance of the General Circular numbers 4/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 21/2021 dated December 14, 2021, 2/2022 dated May 5, 2022, and 10/2022 dated December 28 2022 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') circular nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRP/P/2022/62 dated May 13, 2022 ('SEBI Circulars') and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023. In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report 2022-23 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company at, https://www.oakeymohan.in/ investors.html and on the website of stock exchange at https://www.msei.in/. The dispatch of Notice of the AGM through emails

As per Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administrative) Rules, 2014, as amended from time to time. Secretarial Standard-2 and Regulations 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015 ('SEBI Listing Regulations') the Company is pleased to provide its Members with the facility to cast their votes electronically on all resolutions set forth in the Notice calling 61st Annual General Meeting.

has been completed on September 06, 2023.

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date (September 23, 2023), may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of CDSL ('remote e-voting'). The remote e-voting shall commence on Wednesday, September 27, 2023 (10:00 a.m. IST) and end on Friday the September 29, 2023 (5:00 p.m. IST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 5:00 p.m. IST on September 29, 2023. The facility for voting will also be made available during the AGM, and those members present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during the AGM. The Members may kindly refer the Notice calling 61st AGM for detailed information. Members who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with respective depository participant(s) and members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with Company's RTA by writing them at Investor@beetalfinancial.com to receive copies of the Annual Report 2022-23 along with the Notice of the 61st AGM instructions for remote e-voting and instructions for participation in the AGM through VC The members who require technical assistance to access and participate in the meeting

NOTICE is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Act read with Rules made thereunder and Regulation 42 of SEBI (LODR) 2015, the Register of Members and Share Transfer books will remain closed from Sunday, 24th September 2023 to Saturday, 30th September 2023 (both days inclusive).

through VC may contact the helpline number given in the Notice calling 61st AGM.

Office No 4 . FF . CSC Pocket E Market. Mayur Vihar Phase 2 Delhi 110091

Regd. Off:-

Date: -12-08-2023

Place: -Delhi

For John Oakey and Mohan Ltd

BY Order of the Board of Directors

(Sanjeev Bawa) **Managing Director** DIN-03633427

Place: New Delhi

Date: September 05, 2023

MEENAKSHI STEEL INDUSTRIES LIMITED CIN - L52110DL1985PLC020240

Regd Office: J-189, Basement, J Block, Saket, New Delhi 110 017 Website: www.meenakshisteel.in Email Id: meenakshisteelindustries@gmail.com NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting of the Members of the Company will

be held at the Registered Office of the Company at J-189, Basement, J Block, Saket, New Delhi 110 017 on Saturday, 30th September, 2023 at 3.00 pm The Annual Report for the financial year 2022-23 including the Notice convening this Annual General Meeting has been sent to the members at their registered address by post / courier and electronically to those members who have registered their email Id with the Company. The Book Closure date is Sunday, 24th September, 2023 to Saturday, 30th September, 2023 (both days inclusive). The copy of the 38th Annual Return is available on Company's website www.meenakshisteel.in The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolution proposed

to be passed at this Annual General Meeting by Electronic Mean (e-voting). The Members may cast their vote using an electronic voting system from the place other than Venue of the Meeting (Remote The Remote e-voting facility shall commence on Wednesday, 27th, September, 2023 from 9.00 am and end on Saturday, 29th September, 2023 at 5.00 pm. The cut-off date for Remote E-voting shall

be 23rd September, 2023. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and A person whose name appear on Register of Members / Beneficial Owners as on 5th September, 2023

only shall be allowed to avail the facility of remote e-voting / Voting at the meeting. By order of the Board of Directors For MEENAKSHI STEEL INDUSTRIES LIMITED

> Sudha Jajodia Director (DIN - 00376571)

Place: Mumbai Date: September 6, 2023 ORIX LEASING & FINANCIAL SERVICES INDIA LIMITED

(formerly known as OAIS Auto Financial Services Limited) (A Subsidiary of ORIX Auto Infrastructure Services Limited) ORIX Regd. Office: Plot No. 94, Marol Co-operative Industrial Estate, Andheri-Kurla Road, Andheri (E), Mumbai - 400 059

Tel.: + 91 22 2859 5093 / 6707 0100 | Fax: +91 22 2852 8549 Email: info@orixindia.com | www.orixindia.com | CIN: U74900MH2006PLC163937

### POSSESSION NOTICE [RULE 8(1) SECURITY INTEREST (ENFORECEMENT) RULES, 2002]

1. The undersigned being the authorised officer of ORIX Leasing & Financial Services India Limited, under the Securitization And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred by section 13(12) of the said act read with rule 9 of THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 issued a notice dated 20 December 2022 calling upon Monika Sharma, Parveen Sharma & Kanta Sharma as borrower/ co-borrowers/ mortgagers to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 79,63,512.05/-(Rupees Seventy Nine Lac Sixty Three Thousand Five Hundred Twelve and Five Palse Only) within 60 days of the receipt of the said notice together with further interest and other charges from the date of demand notice till the date of payment/realization.

The borrowers and co-borrowers despite being served with the said notice and having failed to repay the entire notice amount together with further interest and other charges, notice is hereby given to the borrowers and public in general that the undersigned has taken physical possession of the property described here in under in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said act read with rule 9 of the said rules on 04th Day of September 2023.

3. The borrowers and co-borrowers in particular and public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing in the property would be subject to the charge of notice of Rs. 79,63,512.05/- (Rupees Seventy Nine Lac Sixty Three Thousand Five Hundred Twelve and Five Paise Only) together with further interest and other charges from the date of demand notice till the date of payment/ realization.

### Description Of The Property

ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PROPERTY BEARING NO. 4/170, MEASURING 100 SQ, YDS, OUT OF KHASRANO, 12/24, SITUATED AT VILLAGE KHUREJI KHAS, n the abadi of lalita park. Laxmi nagar, in the area of village SHAKARPUR KHAS, ILLAQA SHAHDARA, DELHI-110092, AND BOUNDED AS NORTH: PROPERTY OF OTHERS, SOUTH: PROPERTY OF OTHERS, EAST PROPERTY OF OTHERS, WEST: GALINO, 3 OF 15FT, WIDE

Place : DELHI Loan Account No : LN0000000005269

Date: 04.09.2023

ORIX Leasing & Financial Services India Limited

### MOHAN SHRAMIK UDYOG LIMITED Regd. Off: FF-3, Plot no-319, Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad-201012 Tel. 0120-2657018, CIN: U51101UP1976PLC004244

E-mail: mohanshramik@gmail.com

NOTICE OF THE 47th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE NOTICE is hereby given that the 47th Annual General Meeting (AGM) of the members of Mohan Shramik Udyog Limited (the 'Company') will be held on Saturday, September 30, 2023 at 12:00 Noon IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set forth in the Notice calling 47th AGM, in due compliance of the various MCA Circulars latest being 10/2022 dated December 28, 2022. In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report 2022-23 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company. The dispatch of the Notice of the AGM through emails has been completed on September 5, 2023.

As per Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administrative) Rules, 2014, as amended from time to time, Secretarial Standard-2, the Company is pleased to provide its Members with the facility to cast their votes electronically on all resolutions set forth in the Notice calling 47" Annual General Meeting.

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date (September 23, 2023), may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of CDSL ('remote e-voting'). The remote e-voting shall commence on Wednesday, September 27, 2023 (9:00 a.m. 1ST) and end on Friday, September 29, 2023 (5:00 p.m. 1ST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 5:00 p.m. 1ST on September 29, 2023. The facility for voting will also be made available during the AGM, and those members present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during the AGM. The Members may kindly refer to the Notice calling the 47th AGM for detailed information. Members who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with the company by writing at mohanshramik@gmail.com to receive copies of the Annual Report 2022-23 along with the Notice of the 47th AGM, instructions for remote e-voting and instructions for participation in the AGM through VC. The members who require technical assistance to access and participate in the meeting through VC may contact the helpline number given in the Notice calling the 47th AGM.

NOTICE is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Act read with Rules made there under, the Register of Members and Share Transfer books will remain closed from Thursday, 28" September 2023 to Saturday, 30" September 2023 (both days inclusive).

BY Order of the Board of Directors For Mohan Shramik Udyog Limited

Date: 05.09.2023 Ram Chander Place: Ghaziabad.

of the AGM.

Director

## TRINITY LEAGUE INDIA LIMITED

Read, Off.: A-23, Mandakini Enclave, Alaknanda, GK II, New Delhi-110019 Corporate Office: Trinity Tower, B-2, Sector-7, Noida, Uttar Pradesh -201301 Contact- 0120-6923900-902, website: www.trinitygroup.ind.in, E-mail: trinityleague@trinitygroup.ind.in

Notice of the 35" Annual General Meeting (AGM) It is hereby informed that the Thirty Fifth Annual General Meeting (35th AGM) of Trinity League India Limited will be held on Friday the 29" day of September 2023 at 11:30 AM. Through Video

in the Notice of the AGM only through e-voting facility. The AGM will be held only through VC / OAVM in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and circulars dated May 5, 2020, April 8, 2020 and April 13, 2020) issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular dated May 12, 2020 and Circular No. 02/2021 dates January 13, 2021 & Circular dated May 5, 2022 issued by the Ministry of

Corporate Affairs. The instructions for joining the AGM electronically are provided in the Notice

Notice of the AGM along with the Annual Report 2022-23 is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or CDSL/NSDL ('Depositories") and will also be available on the Company's website www.trinitygroup.ind.in and website of the Bombay Stock Exchange i.e. at www.bseindia.com. Members who have not registered their e-mail addresses and in consequence the Annual Report including Notice of AGM and e-voting instructions could not be serviced, may get their mail address and mobile number registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Beetal Financial & Computer Services (P) Limited, by sending mail on investor@beetalfinancial.com for the same along with scanned copy of the signed request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for obtaining the Annual Report, Notice of AGM and the e-voting instructions.

The remote e-voting period will commence from 26th September, 2023 at 10:00 am and will end at 5.00 pm on 28th September, 2023. During this period the eligible shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, may cast their vote electronically. The e-voting module will be disabled by CDSL for voting thereafter i.e. voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on September 28, 2022. Facility for e-voting shall also be made available during the AGM to those Members who attend the AGM and who have not already cast their vote. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast

The cut-off date for determining the eligibility of members for voting through remote e-voting and e-voting at the AGM is Friday, September 22, 2023. Any person, who becomes a member of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to investor@beetalfinancial.com to cast his/her vote. The detailed procedure for obtaining the login ID and password and exercising e-voting is

Members holding shares in electronic form are requested to intimate any change in their bank mandates to their Depository Participants with whom they are maintaining their demat accounts. The Company or its RTA cannot act on any request received directly from the Members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members. The Members holding shares in physical form are requested to advise any change in their bank mandate immediately to Beetal House, 3rd Floor 99 Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi- 110062. By Order of the Board of Directors,

For Trinity League India Limited

Date: 05.09.2023

Place: Delhi

Piyush Kumar Srivastava Company Secretary & Compliance Officer

Form No. INC-25A Advertisement to be published in the newspaper for Conversion of Public Company into a Private Company Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs Northern Region, New Delhi

In the matter of the Companies Act, 2013, Section 14 of Companies Act, 2013 and Rule 41 of the Companies (Incorporation) Fourth Amendment Rules, 2018

n the matter of M/s CHEM COLOUR (INDIA) LIMITED (CIN: U24119DL1991PLC221352) having its registered office at 217, Gali No. 2, Guru Ram Das Nagar Laxmi Nagar, East Delhi

Notice is hereby given to the general public that the company is intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a Private Limited Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 31st of August, 2023 to enable the company to give effect for such conversion.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed status of the company from Public to Private Limited Company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director, Northern Region, Delhi at B-2 Wing, 2nd floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, 2nd Floor, CGO Complex, New Delhi - 110003 within 14 (fourteen) days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

217, Gali No. 2, Guru Ram Das Nagar Laxmi Nagar, East Delhi, Delhi -110092

For and on behalf of the Applicant Date: 06.09.2023 Ramesh Kumar Agarwal (Director) Place: Delhi

DIN: 00293312 Complete address of Registered Office: 217, Gali No. 2, Guru Ram Das Nagar Laxmi Nagar East Delhi, Delhi 110092

MANIPUR STATE POWER DISTRIBUTION **COMPANY LIMITED** 

Secured Office Building, 3rd Floor, A.T. Line, North A.O.C, Imphal West, Manipur-795001

**NOTICE INVITING TENDER** 

(e-Tender)

Imphal, the 17 August, 2023 No. 2/315(SI-UBS)/RDSS/2023-MSPDCL-TECH/812-88

Last Date & time for submission of Techno-

commercial Bids and Financial Bids (on line)

Manipur State Power Distribution Company Limited (MSPDCL), a Government of Manipur enterprise, invites online Proposals for "Appointment of System Integrator (SI) for implementation of Utility Billing system in Manipur under SaaS model" through global open competitive procurement.

and also submission of Techno-commercial Bids in Hard Copy (for Verification): details intersted bidders may visit website www.manipurtenders.gov.in/ www.manipur.gov.in

Interested bidders may visit the website regularly and remain updated for any amendments/ modifications /Corrigendum etc on the above mentioned Tender. No separate notifications will be given for such amenduments/ modifications /Corrigendum etc. in the print media (Press) or intimated to the bidders separately.

> (Dr. Shailesh Kumar Chourasia) **Mnaging Director, MSPDCL**

12.09.2023

upto 11.00 am



**E-Mail:** info@kothariyeast.in, **Website:** www.kothariyeast.in NOTICE

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of the Member 's of Company will be held on Thursday, the 28th day of September, 2023 at 11:30 A.M through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM. The Notice is available on the website of the Company at <u>www.kothariyeast.in</u> and of NSDL. All the members are informed that: . The ordinary and the special Business as set out in the Notice of AGM will be transacted

through voting by electronic means. Date of completion of electronic dispatch of the AGM Notice: 4th September, 2023.

3. Date and time of commencement of e-voting: 25 th September, 2023 (Monday) from 9:00 a.m and ending on 27th September, 2023 (Wednesday) at 5.00 p.m. Cut-off Date: 21<sup>st</sup> September, 2023.

5. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID & Password is also provided in the Notice of the AGM.

. Member may note that: a) the remote e-voting shall not be allowed beyond 27th September, 2023: b) the facility for voting through electronic mode shall be made available at the AGM: c) the members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again: and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.

For any queries, the members may contact for any grievance at toll free no. 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or write to the Company at info@kothariyeast.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager of National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4<sup>th</sup> floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat marg, Lower parel, Mumbai-400013, at the designated email pallavid@nsdl.co.in

For Kothari Fermentation & Biochem Ltd.

Place: New Delhi **Date**: 05.09.2023

Silky Gupta **Company Secretary** 

HINDUSTHAN URBAN INFRASTRUCTURE LIMITED (An enterprise of THE HINDUSTHAN GROUP) Registered Office: Kanchenjunga, (7th Floor) 18, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 CIN: L31300DL1959PLC003141, E-mail: investors@hindusthan.co.in

Website: www.hindusthanurban.com, Phone: +91-11-23310001-05 NOTICE OF THE 63RD ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ('VC')/OTHER AUDIO VISUAL MEANS ('OAVM') AND E-VOTING INFORMATION

In compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder, SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022 and all other applicable Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and SEBI Circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 and all other applicable Circulars issued by Securities and Exchange Board of India ('SEBI'), Notice is hereby given that the 63rd Annual General Meeting (AGM) of the members of Hindusthan Urban Infrastructure imited is scheduled to be held on Saturday, 30th September, 2023 at 11:00 A.M. through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (VC/OAVM) to transact the businesses as set forth in the notice

The Notice of the Annual General Meeting along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23 have been sent only through electronic mode to those Members whose email IDs are registered with the Company/Registrar & Transfer Agent ('RTA')/Depository participant ('DP'), in compliance with the above circulars. The emailing of the Notice has been completed on 5th September, 2023. The aforesaid documents are also available on the website of the Company at www.hindusthanurban.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com The Company has provided the facility to its Members to cast their vote electronically, through remote e-

Voting facility (prior to AGM) and e-Voting facility (during the AGM), on all the resolutions set forth in the AGM Notice to the Members. Members who have not registered their email IDs are requested to register/update the same with their respective DPs, in case of shares held in demat mode and with Skyline Financial Services Pvt. Ltd., RTA of the Company at compliances@skylinerta.com or info@skylinerta.com in case the shares are held in physical mode. The cut-off date for determining the Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out eligibility of members for voting through remote e-voting and voting at the AGM is Saturday, 23" September, 2023. The remote e-voting period will commence on Wednesday, 27th September, 2023 at 9:00 A.M. (IST) and will end on Friday, 29th September, 2023 at 5:00 P.M. (IST). The instructions for manner of participation and voting for Members holding shares in dematerialized

> who have not registered their email IDs has also been provided in the Notice convening the AGM including other relevant details. For Hindusthan Urban Infrastructure Limited Date: 05.09.2023 M.L.Birmiwala

> mode, physical mode whose email IDs are already registered with the Company/RTA/DP and for those

President- Finance & Secretary

### MISHKA EXIM LIMITED CIN L51909DL2014PLC270810

Regd.Off. F-14, First Floor, Cross River Mall, CBD Ground, Shahdara New Delhi-110032 Email: mishkaexim@gmail.com NOTICE OF 9TH ANNUAL GENERAL MEETING, E- VOTING AND BOOK CLOSURE DATES

Notice is hereby given that the 9th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday the 30th day of September, 2023 at 11:00 A.M at Le Chef, 3rd Floor, Cross River Mall, CBD Ground Shahdara, Delhi- 110032 to transact the business as set out in the Notice. The Notice of AGM, Annual Report, Attendance Slip and Proxy form has been sent in electronic mode to members who's E- Mail Ids registered with the Company or the Depository's Participants unless the Members have registered their request for a hard copy of the same. Physical copies have been sent to those members who have not registered their E- Mail IDs with the Company or Depository's Participants. The copy of the Annual Report is also being placed on the website of the Company i.e. mishkaexim.com

42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 24th September 2023 to 30th September, 2023 (both days inclusive). The Company pleased to provide its members, the facility to cast their vote by electronic means (e-Voting) on all the resolution set forth in the Notice of the 9th AGM. The details

Notice is given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and read with the clause

pursuant to the provisions of the Act and the said rules are given here under: a) Date of Completion of dispatch of Notice on Tuesday, 5th day of September, 2023.

b) The voting period begins on 27th September 2023 from 09:00 a.m. and ends on 29th September 2023 at 05:00 p.m. During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) i.e. 22rd September 2023 may cast their vote electronically In case any member has any queries or issues regarding e- Voting, please contact

helpdesk.evoting@cdslindia.com. For any difficulties, kindly contact the secretarial Department by letter or through email: mishkaexim@gmail.com. For Mishka Exim Limited Sd/-

**Managing Director** 

MGF THE MOTOR & GENERAL FINANCE LIMITED REGD. OFFICE: MGF House, 4/17-B, Asaf Ali Road, New Delhi-110002

Phone No.: 23272216-18, 23276872 E-mail: mgfltd@ hotmail.com Website: http://www.mgfltd.com CIN No.:L74899DL1930PLC000208 | GST No.: 07AAACT2356D2ZN

of the Members of The Motor & General Finance Limited is scheduled to be held on Wednesday, the September 27, 2023 at 11.30 A.M. at the Registered Office i.e. MGF House, 4/17-B, Asaf Ali Road, New Delhi-110002 through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") without the physical presence of Members at a common venue to transact the business, as set out in the Notice of AGM.

Corporate Affairs (MCA) latest being 28th December, 2022 and circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) dated 5" January, 2023, the Company has completed dispatch of Notice of 93" AGM and Annual Report of the Company, inter alia, containing the financial statements and other statutory reports for the year ended 31" March, 2023 on 4" September, 2023 through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company/RTA/DP.

(https://www.mgfltd.com/ Audited%20 Results.html) and the website of the Stock Exchanges, where the shares of the Company are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and NSE Ltd at www.nseindia.com also on the website of the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of

AGM. Members participating through the VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. The facility for appointment of Proxies by the Members will not be available since the AGM is being held by VC/OAVM. VOTING THROUGH ELECTRONIC MODE: The Company is providing the facility of remote e-voting to its members in

respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the company has appointed CDSL to facilitate voting through electronic means, Accordingly, the facility of casting votes by a member using remote e-voting system before the AGM and e-voting during the AGM will be provided by CDSL. The remote e-voting facility would be available during the following period:

Remote e-voting shall not be allowed beyond 05.00 p.m. on September 26, 2023 and once vote on a resolution has been casted by Member, the Member will not be allowed to change it subsequently. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM

at 09.00 a.m. and will end on Tuesday, September 26, 2023 at 05.00 p.m.

to vote through e-voting at the AGM. 3. Members whose names appear in the Register of Members or in the register of beneficial owners, maintained by the Depositories as on the "cut-off date" i.e. Wednesday, September 20, 2023 shall only be entitled to avail of the remote e-voting facility or vote as the case may be at the AGM. The voting rights of Members shall be in proportion to their

Agent (RTA) by sending an email at rta@alankit.com. BOOK CLOSURE Further pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 & Regulation

their email addresses registered with the Registrar and Share Transfer

Share Transfer Books of the company will remain closed from Thursday, September 21, 2023 to Wednesday, September 27, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM. The procedure for e-Voting is available in the notes of Notice of the

93" AGM as well as in the email sent to the Members. Queries/grievances, if any, with regard to e-voting, may be addressed through email at helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800 22 5533

By Order of the Board For THE MOTOR & GENERAL FINANCE LIMITED

(M.K. MADAN) VP,CS & COMPLIANCE OFFICER & CFO Place: New Delhi

Date: September 4, 2023

### Regd. Office: MGF House, 4/17-B, Asaf Ali Road, New Delhi - 110002, Phone: 011-41520070, Fax No.: 41503479

NOTICE is hereby given that the 38" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of India Lease Development Limited is scheduled to be held on Wednesday, the September 27, 2023 at 12.30 P.M. at the Registered Office i.e. MGF House, 4/17-B, Asaf Ali Road,

Annual General Meeting. In accordance with the various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) latest being 28" December, 2022 and circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) dated 5" January, 2023, the Company has completed dispatch of Notice of the 38" AGM and Annual Report of the Company, inter alia, containing the financial statements and other statutory reports for the year ended 31" March, 2023 on 4" September, 2023 through electronic mode only to

The aforesaid documents are available on the website of the Company i.e. www.indialease.com under the "Annual Reports" section (https://www.indialease.com/AnnualReports22-23New.html) and the website of the Stock Exchange, where the shares of the Company is listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and also on the website of the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at

www.evotingindia.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of AGM. Members participating through the VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. The facility for appointment of Proxies by the Members will not be available

## VOTING THROUGH ELECTRONIC MODE:

The Company is providing the facility of remote e-voting to its members in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the company has appointed CDSL to facilitate voting through electronic means, Accordingly, the facility of casting votes by a member using remote e-voting system before the AGM and e-voting during the AGM will be provided by CDSL. The remote e-voting facility would be available during the following period:

at 09.00 a.m. and will end on Tuesday, September 26, 2023 at 05.00 p.m. Remote e-voting shall not be allowed beyond 05.00 p.m. on September 26, 2023 and once vote on a resolution has been cast by Member, the Member will not be allowed to change it subsequently. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the

AGM may attend the AGM through VC/OAVM but are not entitled to cast their vote again. Members who have not cast their vote through remote e-voting and are present in the AGM through VC/OAVM shall be eligible to vote through e-voting at the AGM. Members whose names appear in the Register of Members or in the

the "cut-off date" i.e. Wednesday, September 20, 2023 shall only be entitled to avail of the remote e-voting facility or vote as the case may be at the AGM. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 20, 2023. Members who are holding shares in physical form are requested to get their email addresses registered with the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) by sending an email at rta@alankit.com.

42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from Thursday, September 21, 2023 to Wednesday, September 27, 2023

Further pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 & Regulation

grievances, if any, with regard to e-voting, may be addressed through email at helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533

ACS - 13636

New Delhi

Date: September 4, 2023

Place: New Delhi

BOOK CLOSURE

Rajneesh Gupta

NOTICE REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE OF 93<sup>rd</sup> ANNUAL GENERAL MEETING.

NOTICE is hereby given that the 93rd Annual General Meeting ("AGM")

The aforesaid documents are available on the website of the Company i.e. www.mgfltd.com under the "Annual Reports" section

In accordance with the various circulars issued by the Ministry of

. The remote e-voting will commence on Sunday, September 24, 2023

may attend the AGM through VC/OAVM but are not entitled to cast their vote again. Members who have not casted their votes through remote e-voting and are present in the AGM through VC/OAVM shall be eligible

shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cutoff date i.e. Wednesday, September 20, 2023. Members who are holding shares in physical form are requested to get

42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, that the Register of Members and

ACS - 2951

INDIA LEASE DEVELOPMENT LIMITED CIN NO: L74899DL1984PLC019218 GSTIN: 07AAACI0149R1ZB

Website: www.indialease.com, E-mail: info@indialease.com NOTICE OF 38™ ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

New Delhi-110002 through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") without the physical presence of Members at a common venue to transact the business, as set out in the Notice of 38"

those members whose email addresses are registered with the Company/RTA/DP.

since the AGM is being held by VC/OAVM.

1. The remote e-voting will commence on Sunday, September 24, 2023

register of beneficial owners, maintained by the Depositories as on

(both days inclusive) for the purpose of AGM. The procedure for e-Voting is available in the notes of Notice of the 38" AGM as well as in the email sent to the Members. Queries/

> By Order of the Board For India Lease Development Limited

> > Rohit Madan Manager, Company Secretary, Compliance Officer & CFO

financialexp.epapr.in

### लॉडर्स क्लोरो ऐल्कली लिमिटेड

सीआईएन : एल24117आरजे1979पीएलसी002099 पंजी. कार्यालय: एसपी-460, मत्त्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर-301030 (राजस्थान) कार्पोरेट कार्यालय: ए-281, प्रथम तल, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024 फोन : 011-40239034 / 35, वेबसाइट : www.lordschloro.com

ई-मेल : secretarial@lordschloro.com 44वीं वार्षिक सामान्य बैठक, बही बंदी की सूचना और रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की 44वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बृहस्पतिवार, 28 सितम्बर, 2023 को पूर्वा. 11.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय एसपी-460. मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर-301030 (राजस्थान) में आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम के आयोजन हेतु सूचना दिनांकित 09 अगस्त, 2023 में सूचीबद्ध व्यवसाय निप्पादित किया जाएगा। एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर के निबन्धनों में, एजीएम के आयोजन की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट समी

सदस्यों को दिनांक 04 सितम्बर, 2023 तक मेजी जा चुकी है। एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट, उपस्थिति पर्ची तथा परोक्षी प्रपत्र सहित उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक विधि से भेजी गई हैं, जिनकी ई-मेर आईडी'ज कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट(स) के पास पहले से दर्ज हैं। सदस्यों को 44 वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर द्वारा

भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्य, जिन्होंने अपना ई—मेल पता कम्पनी के पास पंजीबद्ध नहीं करवाया तथा जो 44वीं एजीएम की सूचना तथा वर्ष 2022—23 हेतु वार्षिक रिपोर्ट और ई—वोटिंग विवरण प्राप्त करने व इच्छुक हैं हमको secretarial@lordschloro.com पर लिख सकते हैं। इस प्रयोजन हेतु वे हमें हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति, फोलियो नंबर, पूर्ण पता और पंजीकरण हेत् ई-मेल पता का उल्लेख करते हुए, पैन कार्ड और सदस्य के पंजीकृत पता के समर्थन में किसी अन्य दस्तावेज की स्व-सत्यापित प्रति के साथ मेज सकते हैं। ढीमैट रूप में शेयरों के धारक सदस्यों से अपना ई-मेल पता पंजीबद्ध करने हेत् अनुरोध पत्र केवल अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपॅट(पार्टिसिपॅट्स) को भेजने का अनुरोध किया जाता है।

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.lordschloro.com एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

एजीएम में निष्पादित किए जाने वाले व्यवसाय की सभी मदों से संबंधित दस्तावेज कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में एजीएम की तिथि तक प्रत्येक कार्यदिवस को कार्य समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रवंधन और प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाए) विनियमावली, 2015, समय समय प संशोधित, के विनियम 44 के अनुसरण में, कम्पनी इसके सदस्यों को वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में अपन वोट इलेक्ट्रॉनिक साधनों से डालने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है तथा व्यवसाय का निष्पादन ई-वोटिंग सर्विसेज के माध्यम से किया जा सकता है। सदस्यों द्वारा एजीएम के स्थान से अलग किसी स्थान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हुए वोट जालने की सुविधा (रिमोट ई-वोटिंग) नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और तदधीन विरचित नियमों के तहत अपेक्षित विवरण नीचे दिया गया है : क) एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण और विशेष व्यवसाय रिमोट ई-वोटिंग द्वारा निष्पादित किया ज

ख) ई-वोटिंग आरंग होने की तिथि एवं समय: सोमवार, 25 सितम्बर, 2023 पूर्वा. 9.00 बजे।

ग) ई-वोटिंग समाप्ति की तिथि एवं समय : बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 अप. 5.00 बजे । घ) ई-वोटिंग द्वारा अथवा एजीएम में मतपत्र द्वारा वोटिंग की ग्राह्मता निर्धारण हेतु विच्छेदन तिथि

बृहस्पतिवार, 21 सितम्बर, 2023 है। कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सुचना के प्रेषण के बाद कम्पनी के शेयर अर्जित कर कम्पनी का सदस्य

बनता है तथा विच्छेदन तिथि अर्थात बृहरपतिवार, 21 सितम्बर, 2023 को शेयरधारक है, वह यदि भौतिक रूप में शेयरधारक है त evoting@nsdl.co.in या Secretarial@lordschloro.com पर अनुरोध भेजकर, अपनी क्रम संख्या प्राप्त क सकता है और यदि शेयर डीमैट रूप में हैं, तो कृपया एजीएम की सूचना के 'इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा

वोटिंग" के रूप में एजीएम की सूचना का नोट नंबर 15 देखें। अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार विवरण 1) बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 अप. 5.00 बजे के पश्चात रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतपत्र द्वारा अपना वोट डाल सदस्यगण रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ।

2) एजीएम में मतपत्र द्वारा वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में भाग ले रहे जिन

सकते हैं, परंतु उन्हें पनः वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। कंबल वहीं व्यक्ति, रिमोट ई—वीटिंग और एजीएम में मतदान की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा

जिसका नाम विच्छेदन तिथि अर्थात बृहरपतिवार, 21 सितम्बर, 2023 को डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी रवामियों अथवा सदस्यों की पंजिका में सुवीबद्ध होगा। छ) एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट <u>www.lordschloro.com</u> एनएसडीएल की वेबसाइट

https://www.evoting.nsdl.com तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com औ www.nseindia.com. पर भी उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अनुदेशों के लिए, सदस्यगण एजीएम की सूचना में दिए गए अनुदेश देखें और यदि आपको ई-वोटिंग के संबंध में कोई संदेह या समस्या है, तो आप https://www.evoting.nsdl.com/ पर उपलब्ध बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यूज") तथा ई-वोटिंग

i) इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग हेतु सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चतुर्थ तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, लोक्षर परेल, मुंबई-400013 के संबोधित करें अथवा evoting@nsdl.co.in को ई-मेल करें अथवा 1800 102 0990 / 1800 224 430 प

तदद्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अधीन यह भी सूचना दी जाती है कि सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां सोमवार, 25 सितम्बर, 2023 से बृहस्पतिवार, 28 सितम्बर, 2023 (दोनों दिन सहित) तक, एजीएम के प्रयोजन हेत् बंद रहेंगी।

वास्ते लॉड्स क्लोरो ऐल्कली लिमिटेड हस्ता./-अजय विरमानी प्रबंध निदेशक स्थान : नई दिल्ली डीआईएनः 00758726 तिथि : 5 सितम्बर, 2023

इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड र्न: L74899DL1984PLC019218 एजीएसटीआईएन: 07AAACI0149R1ZB रजि. कार्यांलयः एमजीएफ हाउस, 4/17—बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली —110002, फोन: 011-41520070, पौक्स नंबर: 41503479

वेक्साइटः www.indialease.com, ई-मेलः info@indialease.com

### 38वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड के सदस्यों की 38वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुघवार, 27 सितंबर, 2023 को दोपहर 12.30 बजे , पंजीकृत कार्यालय यानी एमजीएफ हाउस, 4/17-बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विज्अल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना 38वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस में निर्धारित अनुसार व्यवसाय का संचालन करने के लिए आयोजित होने वाली है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों नवीनतम 28 दिसंबर, 2022 को और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दिनांक 5 जनवरी, 2023 को जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी की 38वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट, अन्य बातों के साथ-साथ, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण और अन्य वैधानिक रिपोर्ट 4 सितंबर, 2023 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से केवल उन सदस्यों के लिए नोटिस भेजने का काम पूरा कर लिया है, जिनके ईमेल पते कंपनी / आरटीए / डीपी के साथ पंजीकृत हैं और उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट यानी www.indialease.com पर 'वार्षिक रिपोर्ट" स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (https://www. indialease.com/AnnualReports22-23New.html), जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैंयानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") की वेबसाइट

www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध हैं। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा। चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की

### नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप के माध्यम से मतदानः

कंपनी एजीएम में किए जाने वाले कार्यवाही के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है और इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोटिंग की सुविधा के लिए सीडीएसएल को नियुक्त किया है, तदनुसार,सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके और एजीएम के दौरान ई—वीटिंग सीडीएसएल द्वारा प्रदान किया जाएगा। रिमोट ई-वोटिंग स्विधा निम्नलिखित अवधि के दौरान

 रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 24 सितंबर, 2023 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी और मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगी। 26 सितंबर, 2023 को शाम 05.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

 जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है. वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे दोबा. रा वोट डालने के हकदार नहीं हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं, वे एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे।

 जिन सदस्यों के नाम "कट—ऑफ डेट" यानी बुधवार, 20 सितंबर, 2023 को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर या लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे एजीएम में केवल रिमोट ई-मतदान या मतदान जैसा भी मामला हो ,की स्विधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। सदस्यों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 20 सितंबर, 2023 को कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होगा। जिन सदस्यों के पास मौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे rta@alankit.com पर एक ईमेल भेजकर रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत कर लें।

इसके अलावा ,कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (एलओडीआर)

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः ४ सितंबर, 2023

विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 से बुधवार, 27 सितंबर, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक एजीएम के प्रयोजन के लिए बंद रहेंगे।

ई-वोटिंग की प्रक्रिया 38वीं एजीएम के नोटिस के नोटस के साथ-साथ सदस्यों को भेजे गए ईमेल में भी उपलब्ध है। ई-वोटिंग के संबंध में प्रश्न / शिकायत, यदि कोई हो, को ईमेल के माध्यम से helpdesk.evoting@cdslindia.com पर संबोधित किया जा सकता है या 1800225533 पर कॉल किया जा सकता है। बोर्ड के आज्ञानुसार

कृते इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड हस्ता /-

रोहित मदान प्रबंधक, कंपनी सचिव, अनुपालन अधिकारी और सीएफओ

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिभिटेड सरफॉएसि अधिनियम २००२ की धारा १३(२) के अंतर्गत मांग सूचना पंजीकृत कार्यालय : "राधिका", द्वितीय तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009,

शाखां कार्यालय : खसरा सं. ४७, ऑक्सफोर्ड स्कूल के पीछे, विकासपुरी, दिल्ली-110018 आप, निम्न वर्णित ऋणकर्ता, सह–ऋणकर्तागणों और गारंटरगणों ने अपनी अचल संपत्तियों (प्रतिभृतियों) को बंधव रखकर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से ऋण(ऋणानेक) / वित्तीय सुविधा(एं) प्राप्त की थीं और आप ने अप वित्तीय अनुशासन को बनाये नहीं रखा उनका प्रतिभुगतान करने में चूक कर चुके हैं। आपकी चूकों के परिणामस्वःप आपके ऋण को अनिष्पादनीय परिसंपत्ति के प में वर्गीकत कर दिया गया था। इसलिये अब, इसके उपरांत, कंपनी

ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना निर्गत की है, जिसकी विषय—वस्तु को, आपको सूचना से अवगत कराने के वैकल्पिक सेवा—माध्यम के :प में तथा उसके द्वारा, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार यहां निम्नानुसार प्रकाशित किया जा रहा है। ऋणकर्ताओं, सह—ऋणकर्ताओं, ऋण खाता सं., ऋण राशि, धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत मांग सूचना तिथि, सूचना के अंतर्गत अभ्यर्थित राशि, एनपीए तिथि तथ

उधारकर्ता और सह—उधारकर्ताओं के नाम : अजय कुमार तनेजा – मकान नंबर बी 343 द्वितीय तल न्यू फ्रेंडस कॉलोनी दिल्ली–110017 दिल्ली और इसके अलावा कार्यालय 301, तीसरी मंजिल, एनडीएम–1 नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा नई दिल्ली-110001 -और भी - दुकान नंबररू- जी1, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर— 78 लाडली भवन, केदार नाथ रोड दरिया गंज दिल्ली—110002 — अंजू मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड – जी—1 प्लॉट नंबर 78 लाडली भवन कीरनाथ रोड दरिया गंज दिल्ली—110002 दिल्ली – तनेजा टोनर्स प्राइवेट लिमिटेड – जी 1 प्लॉट नंबर 78 लाडली भवन केदारनाथ रोड दरियागंज नई दिल्ली–110002 दिल्ली –अंजू तनेजा – मकान नंबर बी 343 दूसरी मंजिल न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली–110017 दिल्ली, ऋण खाता संख्याः ४९१४८१; ऋण राशि ः रु. २१५६४४७२.१ / – (रुपये दो करोड़ पंद्रह लाख चौंसठ हजार चार सौ बहत्तर एवं पैसे दस मात्र), मांग सूचना : 16/08/2023; अभ्यर्थित राशि : 11.08.2023 तक रु 7148274 / – (रुपये इकहत्तर लाख अडतालीस हजार दो सौ चौवहत्तर मात्र) और आकस्मिक व्यय, लागत और शूल्क आदि के साथ वास्तविक प्राप्ति तक भविष्य का संविदागत ब्याज, एनपीए दिनांक : 02.08.2023; प्रतिभूति का विवरण : संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जो दुकान सं.≔ जी−1, ग्राउंड फ्लोर प्लॉट नंबर –78, लाडली भवन, केदारनाथ रोड दरिया गंज, दिल्ली–110002 में स्थित है संपत्ति 91.63 वर्ग मीटर के अधि क्षेत्रफल के साथ भूतल पर दुकान बनाई गई है, संपत्ति सीमाएँ : उत्तर– अन्य संपत्ति, दक्षिण– सामान्य मार्ग, पूर्व– संपत्ति का हिस्सा, पश्चिम– सड़क।

**उधारकर्ता और सह-उधारकर्ताओं के नाम :** आरती इलेक्ट्रॉनिक्स - 142 जी / एफ ओल्ड लाजपत राय मार्केट चांदनी चौक दिल्ली-110006 दिल्ली -और साथ ही संपत्ति संख्या ए-28. क्षेत्रफल 53 वर्ग गज जो इंद्र नगर दिल्ली–110033 में स्थित मकान – सुमन बत्रा – मकान नं. 28वां तल पहला ब्लॉक–ए इंद्र नगर आदर्श नगर दिल्ली—110033 दिल्ली — दीपक बत्रा — मकान नंबर 28 तल पहला ब्लॉक —ए इंद्र नगर आदर्श नगर दिल्ली–110033 दिल्ली – नरेंद्र बत्रा – मकान नंबर 28 तल पहला ब्लॉक–ए इंद्र नगर | आदर्श नगर दिल्ली–110033 दिल्ली – कुलभूषण बत्रा – मकान नंबर 28 तल पहला ब्लॉक – ए इंद्र नगर आदर्श नगर दिल्ली—110033 दिल्ली — कमलेश बत्रा — मकान नंबर 28 मंजिल पहली ब्लॉक — ए इंद्र नगर आदर्श नगर दिल्ली-110033 दिल्ली : ऋण खाता संख्या : 14594036 / 8676258: ऋण राशि रु.1751000 / – (रुपये सत्रह लाख इक्यावन हजार मात्र) ऋण खाता संख्या 14594036 द्वारा और रु 9000000 / - (रुपये नब्बे लाख मात्र) ऋण खाता संख्या 8676258 द्वारा, मांग सूचना : 16 / 08 / 2023; अभ्यर्थित राशि : रु. 9761385 (रुपये सत्तानबे लाख इकसट हजार तीन सौ पिचासी मात्र) और आकिस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि सहित वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदागत ब्याज, एनपीए दिनांक : 02. 08.2023; प्रतिभृति का विवरण : संपत्ति संख्या ए–28 के समस्त वह भाग तथा अंश, माप 53 वर्ग गज जो इंदिरा नगर, दिल्ली में स्थित है, संपत्ति नरेंद्र बत्रा के नाम पर बिक्री विलेख सं. 1159 दिनांक 03.04.1984 के द्वारा और कुलभूषण बत्रा द्वारा गिफ्ट डीड क्रमांक 1231 दिनांक 21.07.1999

**उधारकर्ता और सह—उधारकर्ताओं के नाम :** गिरीश कुमार श्रीवास्तव – पी 21, सेक्टर –23, संजय नगर, गाजियाबाद — 201001 उत्तर प्रदेश, गौरव क्मार श्रीवास्तव — पी 21, सेक्टर — 23, संजय नगर, गाजियाबाद — 201001 उत्तर प्रदेश — मीरा श्रीवास्तव — पी21, सेक्टर—23, संजय नगर, गाजियाबाद–201001 उत्तर प्रदेश, ऋण खाता संख्याः 974118; ऋण राशिः रु. 2500000 / – (रुपये पच्चीस लाख मात्र), मांग सूचना : 16 / 08 / 2023; अभ्यर्थित राशिः रु. 938711 / – (रुपये नौ लाख अड़तीस हजार सात सौ ग्यारह मात्र) 11.08.2023 तक और आकरिमक व्यय, लागत और शुल्क आदि सहित वास्तविक प्राप्ति तक भविष्य का संविदात्मक ब्याज, एनपीए दिनांक : 14.07.2023; प्रतिभूति के विवरण : संजय नगर, ब्लॉक–पी, सेक्टर–23, गाजियाबाद में स्थित संपत्ति सं. 21 के समस्त भाग तथा अंश, माप 95.28 वर्ग मीटर, लीज कम सेल डीड सं. 4002 दिनांक 28.03.2003 के अनुसार पंजीकृत, संपत्ति श्रीमती मीरा श्रीवास्तव पत्नी गिरीश कुमार श्रीवास्तव के नाम पर है, जो इस प्रकार परिसीमित है : पूर्व– सर्कुलेशन, पश्चिम— संडक, उत्तर— प्लॉट नं. 22, दक्षिण— प्लॉट नं. 20

**उधारकर्ता और सह—उधारकर्ताओं के नाम :** सश्री भवानी वस्त्र भंडार – भोला रोड ग्राम भोला झाल मेरट जानी–250501 उत्तर प्रदेश –और साथ ही –रेवेन्यू विला जीई भोला मेरठ सिटी जानी यूपी जानी–250501 – प्रेमवती चंद्रा भोला रोड पर स्थित एक निवास स्थान भोला मेरठ जानी–250501 उत्तर प्रदेश – चंद्र प्रकाश गर्ग – भोला रोड भोला मेरठ जानी–250501 उत्तर प्रदेश – राधेश्याम गुप्ता – भोला रोड गांव भोला मेरठ जानी–250501 उत्तर प्रदेश – मधु सिंघल – भोला रोड भोला मेरठ जानी–250501 उत्तर प्रदेश –अर्जुन गुप्ता –भोला रोड ग्राम भोला झाल मेरठ जानी–250501 उत्तर प्रदेश – अलका राधे – भोला रोड भोला मेरठ जानी–250501 उत्तर प्रदेश : ऋण खाता संख्या : 15562339 / 8550108; ऋण राशि : ऋण खाता संख्या 15562339 द्वारा रु. 418000 / — (चार लाख अटठारह हजार मात्र) और ऋण खाता संख्या 8550108 द्वारा रु. 2139717 / – (रुपये इक्कीस लाख उनतालिस हजार सात सौ संत्रह मात्र) तक मांग सूचना : 16/08/2023; अभ्यर्थित राशि : 11.08.2023 तक रु. 2305702/- (रुपये तेईस लाख पांच हजार सात सौ दो मात्र) और आकरिमक व्यय, लागत और शुल्क आदि के साथ वास्तविक प्राप्ति तक भविष्य का संविदात्मक ब्याज, एनपीए दिनांक : 02.08.2023; प्रतिभूति का विवरण : वह सभी आवासीय मकान, क्षेत्रफल 248 वर्ग गज, जो ग्राम भोला, तहसील और जिला मेरठ में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व— 18 गज, फिर रमेश चंद और मुरारी लाल का मकान, पश्चिम— 14.5 गज, फिर लाला चतरभोज का घर, उत्तर- 18 गज, फिर रूप चंद नाई इत्यादि का घर, दक्षिण- 13 गज, फिर सडक।

अतः आप उधारकर्ता / सह–उधारकर्ताओं और गारंटरों को, इस सूचना के 60 दिनों के अंदर यहां इसमें उपर्युक्त अंकितानुसार भावी ब्याज के साथ उपरांकित मांगकृत राशि का, पूर्ण भूगतान करने के लिये निर्देशित किया जाता है भुगतान करने में विफल होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता उपरोक्त वर्णित प्रतिभूतियों को प्रवर्तित करने के लिये अधिनियम व . अंतर्गत कार्रवाई करने को बाध्य होंगे। (उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभृत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त कराने के लिये उपलब समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।) कृपया ध्यार दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप हमारी सहमति के बिना उपरोक्त संदर्भित प्रतिभूतियों को बिक्री, पट्टा के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित हैं और अधिनियम की धारा 13(13) की कोई भी अनुपालनहीनता, उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय है। किसी भी प्रश्न के लिये कृपया श्री अरुण यादव से फोन : 9350538386 पर तथा विकास आनंद से फोन : 09711010384

पर संपर्क करें। स्थान ः दिल्ली राराक्षे, हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी **दिनांक** : 06-09-2023 कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

# MGF द मोटर एण्ड जनरल फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : एमजीएफ हाउस, 4/17-बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 दूरभाष : 23272216-18, 23276872 फैक्स नं. : 23274606 ई-मेल : mgfltd@hotmail.com वेबसाइट : http://www.mgfltd.com सीआईएन नं. : L74899DL1930PLC000208 जीएसटी नं. : 07AAACT2356D2ZN

### 93वीं वार्षिक आम बैठक की सुचना, रिमोट ई-वोटिंग तथा बुक क्लोजर की जानकारी

एतद्वारा सुचना दी जाती है कि एजीएम की सुचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए द मोटर एण्ड जनरल फाइनेंस लिमिटेड के सदस्यों की 93वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 को 11.30 बजे पूर्वा. में पंजीकृत कार्यालय अर्थात एमजीएफ हाउस, 4/17-बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों और नवीनतम परिपत्र दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, कम्पनी ने 93वें एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष की कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में 4 सितम्बर, 2023 को भेज दी गयी जिनके ई-मेल पते कम्पनी/आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत हैं।

उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट यानी www.mgfltd.com पर Annual Reports (https://www.mgfltd.com/Audited%20Results.html) और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर और एनएसई लिमिटेड www.nseindia.com पर तथा साथ ही सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल' www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के लिए गिना जाएगा। सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जा रही है। इलेक्टॉनिक मोड के माध्यम से वोटिंगः

कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के संदर्भ में रिमोट ई-वोटिंग की सविधा प्रदान कर रही है और इस उददेश्य के लिए कम्पनी ने इलेक्टॉनिक साधनों के माध्यम से वोटिंग की सविधा के लिए सीडीएसएल को नियक्त किया है। तदनसार एजीएम से पर्व रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग का प्रयोग करके सदस्य द्वारा मतदान की सुविधा सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अविध के दौरान

1. रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 24 सितंबर,2023 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी और मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगी। 26 सितंबर, 2023 को शाम 05.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी और सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं, वे एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे।

जिन सदस्यों के नाम 'कट-ऑफ तिथि' यानी बुधवार, 20 सितंबर, 2023 को डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित सदस्यों के रजिस्टर या लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा या एजीएम में ई-वोटिंग, जैसा भी मामला हो, का लाभ उठाने के हकदार होंगे। सदस्यों का मतदान अधिकार कटऑफ तिथि यानी बुधवार, 20 सितंबर 2023 को कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के

जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे rta@alankit.com पर एक ईमेल भेजकर अपने ईमेल पते रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के साथ पंजीकृत करवाएं।

## बक क्लोजर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में एतदवारा नोटिस भी दिया जाता है, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 से बुधवार, 27 सितंबर, 2023 (दोनों दिन सिम्मिलित)

ई-वोटिंग की प्रक्रिया 93वीं एजीएम की सूचना के नोट्स में उपलब्ध है और सदस्यों को भेजे| गये ई-मेल में भी है। ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न/शिकायत, यदि कोई हो, तो ईमेल के माध्यम से helpdesk.evoting@cdslindia.com पर या 1800 22 5533 पर कॉल करके संबोधित किया जा सकता है।

> बोर्ड के आदेशानुसार द मोटर एंड जनरल फाइनेंस लिमिटेड (एम.के. मदन)

स्थान : नई दिल्ली वीपी, सीएस और अनुपालन अधिकारी दिनांक: 4 सितंबर, 2023 एसीएस-2951

एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड

में, शक्ति नगर, फैजाबाद रोड, लखनऊ-226016

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सचना .पंजीकृत कार्यालयः राधिका, 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009

आप नीचे वर्णित ऋणधारक तथा सह-ऋणधारक ने अपनी अचल सम्पत्तियों (प्रतिभृतियों) को गिरवी रखकर एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस से ऋण(णों)/वित्तीय सविधा(एँ) प्राप्त की है तथा उसे वापस लौटाने में चक की हैं। आपकी चूक के उपरांत आपके ऋणों को गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदुपरान्त, कम्पनी ने वित्तीय परिसम्सपित्तयों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है तथा वैकल्पिक सेवा के माध्यम से आपको

शाखा कार्यालयः ताजपुरिया पैलेस, कजरिया टाइल्स के ऊपर, कुकरल पुल के निकट, जरिस्ता शोरूम के बगल

ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों, ऋण खाता सं., ऋण राशि, धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना तिथि, सूचना में दावा की गई राशि, एनपीए तिथि एवं प्रतिभतियों का विवरण इस प्रकार है:

ऋणधारकों एवं सह-ऋणधारकों का नामः संदीप कुमार माहेश्वरी, 8/8, एचआईजी फ्लैट्स, सामने होटल मैरिना

संजय प्लेस, हरि पर्वत, आगरा सिविल लाइन्स, आगरा-282002, उत्तर प्रदेश, शशांक माहेश्वरी, 8/8 एचआईजी फ्लैट्स, सामने होटल मैरिना संजय प्लेस, हरि पर्वत, आगरा सिविल लाइन्स, आगरा-282002, उत्तर प्रदेश, विनीता माहेश्वरी, ऋण खाता सं. 13271289/6181072; ऋणराशिः ऋणखाता सं. 13271289 के द्वारा रु. 378405/- (रु. तीन लाख अठहत्तर हजार चार सौ पाँच मात्र) तथा ऋणखाता सं. 6181072 के द्वारा रु. 2000000/- (रु. बीस लाख मात्र); मांग सुचना तिथिः 16.08.2023, मांग की गई राशिः रु. 2019842/-(रु. बीस लाख उन्नीस हजार आठ सौ बयालिस मात्र) 11.08.2023 को तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत चार्जेज, आदि के साथ उसकी वसुली तक आगे का ब्याज; एनपीए तिथिः 02.08.2023, प्रतिभृति का विवरणः फ्लैट/मकान सं. ८, ब्लॉक-८, २रा तल, माप ८५.13 वर्ग मी., एचआईजी फ्लैट, प्रॉफेसर कॉलोनी, हरि पर्वत वार्ड, तहसील एवं जिला आगरा जैसा कि उप-रजिस्ट्रार, आगरा के कार्यालय में बही नं. 1, जिल्द नं. 5166, पेज नं. 61/82 में क्रमांक 06 तिथि 01.01.2005 में विधिवत पंजीकृत श्री संदीप कुमार माहेश्वरी, पुत्र श्री आर. के माहेश्वरी के पक्ष में श्री कन्हैया लाल साहनी, पुत्र श्री चेतनराम सहनी द्वारा निष्पादित पंजीकृत बिक्री प्रलेख के अनुसार है। चौहद्दीः पूर्वः खुला, पश्चिमः सामूहिक सीढ़ी, निकास तथा उसके बाद 8/9 का दीवाल, उत्तरः

ऋणधारक एवं सह-ऋणधारक का नाम : हरियाणा पैलेस रेस्टोरेन्ट एंड बार प्राईवेट लिमिटेड फायर ब्रिगेड कॉलोनी अलीगढ एचसीएल अलीगढ़-202001, उत्तर प्रदेश, साथ हीं: मकान सं. 5/146 ई, एरिया 208.6 वर्ग मी., खसरा नं. 190 तथा 191 का भाग जो फायर बिग्रेड कॉलोनी, गूलर अलीगढ़ में स्थित है तथा साथ हीं: मकान सं. 5/128, एरिया 36.37 वर्ग मी. जो फायर ब्रिगेड कॉलोनी, परगणा एवं तहसील कोईल, जिला-अलीगढ़ में स्थित है, पवन कुमार-सराय लवरिया अलीगढ़-202001, उत्तर प्रदेश, राज कुमार अगरवाल, रत्नेश पुरम, मैरिस रोड, कोइल, अलीगढ़-202001, उत्तर प्रदेश, निमिशा अगरवाल-45, रत्नेश पुरम, मैरिस रोड, कोइल, अलीगढ़-202001, उत्तर प्रदेश, ऋण खाता सं. 6983379/ 15423319, ऋण राशिः रु. 5000000/-(रुपये पचास लाख मात्र) ऋण खाता सं. 6983379 द्वारा तथा रु. 945000/- (रु. नौ लाख पैंतालिस हजार मात्र) ऋण खाता सं. 15423319 द्वारा, मांग सूचना तिथिः 16.08.2023, मांग की गई राशिः 11.08.2023 को रु. 4927335/- (रु. उन्चास लाख सत्ताईस हजार तीन सौ पैंतीस मात्र तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ आगे का अनुबंधित ब्याज आदि, एनपीए तिथिः 02.08.2023, प्रतिभूति का विवरणः मोहल्ला फायर ब्रिगेड कॉलोनी, गूलर रोड, कस्बा कोईल, परगणा एवं तहसील कोईल, जिला अलीगढ़ 202001 में स्थित खसरा नं. 190 तथा 191 के भाग में मकान सं. 5/146 ई, एरिया 249.6 वर्ग यार्ड्स अथवा 208.6 वर्ग मीटर का सभी भाग तथा हिस्सा, चौहद्दीः पूर्वः कमलेश कुमार की सम्पत्ति, पश्चिमः प्लॉट एवं अज्ञात व्यक्ति का मकान, उत्तरः गूलर रोड 50 फीट, दक्षिणः प्रेमवती का मकान)

अतएव, आप ऋणधारकों तथा सह-ऋणधारकों/गारंटरों को निर्देश दिया जाता है कि इस सुचना के 60 दिनों के भीतर यहां ऊपर वर्णित आगे के ब्याज के साथ उपरोक्त मांग की गई सम्पूर्ण राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर अधोहस्ताक्षरी ऊपर वर्णित प्रतिभृतियों को प्रवर्तित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाई करने के लिए बाध्य होंगे। (ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम

की धारा 13 की उप- धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। ) कपया ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अंतर्गत आप हमारी सहमति के बिना बिकी, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभृतियों को अंतरित करने के अधिकार से वंचित हैं तथा अधिनियम की धारा 13 (13) का उल्लंघन उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए सम्पर्क करें: श्री कुश कपूर, फोन : 9838076150- विकास आनंद-9711010384

स्थानः उत्तर प्रदेश हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी तिथि: 06.09.2023 एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए

#### **GENESIS FINANCE COMPANY LIMITED** CIN No. L65910DL1990PLC040705

Regd. Office: 4, MMTC/STC Market, Geetanjali, New Delhi-110017 Tel. No.: 011-42181244, E-mail: genesis599@gmail.com, Website: www.genesisfinance.net

NOTICE OF 33RD ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that 33rd Annual General Meeting ("AGM") of the members of the

Company is scheduled to be held on Saturday, 30th September, 2023, at 11:00 A.M. at the registered office of the Company situated at 4 MMTC/STC Market, Geetanjali, New Delhi -110017 to transact the businesses as set forth in the Notice convening the said AGM. The electronic copies of Notice of 33rd AGM and Annual Report for the financial year 2022-23.

Instructions for e-voting, Proxy Form and Attendance Slip have been sent to members by e-mail whose e-mail IDs are registered with the company/depository and physical copies by permitted mode to the members at their registered address. The Notice and Annual Report for the financia year 2022-23 is also available on Company's website i.e. www.genesisfinance.net, on Stock Exchange's Website www.msei.in and also on CDSL website www.evotingindia.com. The dispatch of the Notice of the AGM will be completed on 05th September, 2023.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, ("Listing Regulations") the Register of Members and the Share Transfer books of the Company shall remain closed from Sunday, 24th September, 2023 to Saturday, 30th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Further, pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing the facility to all its members to exercise their vote at the 33th AGM by electronic means through e-voting services provided by CDSL ("remote e-voting").

Members may please note that the remote e-voting will commence on Wednesday, 27th September, 2023 at 10:00 A.M. and will end on Friday, 29th September, 2023 at 05:00 P.M. both days inclusive. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. The cut-of date for determining the eligibility to vote by Electronic means or at the AGM is Saturday 23" September, 2023. Any person, who become a member after dispatch of notice and hold shares as on Saturday, 23<sup>rd</sup> September, 2023 being cut off date, may obtain login ID and password by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com. The members whose name appear in the register of members/list of beneficial owners as on the Saturday, 23<sup>rd</sup> September, 2023, being the cut-off date, are entitled to avail the facility of remote e-voting as well as the voting at the AGM. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose

The facility of voting through ballot paper shall also be made available at the AGM who have not cast their vote through remote e-voting. Further, a member may participate at the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at

In case of queries, members may contact Ms. Richa Bhardwaj, Compliance Officer at the above Registered Office, Phone:011-42181244, E-mail id: genesis599@gmail.com or the Registrar and Transfer Agents at the following address: Skyline Financial Services Private Limited, D-153A, 1 Floor, Okhla Industrial Area Phase - 1, East of Kailash, New Delhi – 110020, Tel: 011-26812682-83 Fax:011-26812682, E-Mail ID: info@skylinerta.com.

By order of the Board For Genesis Finance Company Limited

Richa Bhardwai

Date: 05.09.2023 Place: New Delhi (Company Secretary and Compliance Officer)

## VIKAS ecőtech LTD.

CIN: L65999DL1984PLC019465 Registered Office: 34/1, Vikas Apartments, East Punjabi Bagh, Delhi-110026 Tel No. 011 4314 4444 | Email: cs@vikasecotech.com Website: www.vikasecotech.com

Notice of Annual General Meeting & Book Closure

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of th members of Vikas EcotechLimited will be held on Friday, September 29, 2023 at 4:30 P.M. through Video Conferencing/ Other Audio-Visual Means (VC/OAVM) facility, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') General Circular Nos.14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020 and April 13, 2020 respectively, General Circular No. 22/2020 dated June 15,2020, General Circular No 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/ 2020 dated Decembe 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021, and General Circular No. 3/2022 dated May 5 2022 and General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO, CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2, CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "SEBI Circulars"), to transact the businesses as set out in the Notice of 38th AGM of the Company

Pursuant to the said Circulars, the Company has sent the Notice and Annual Report of 38thAGM along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23 on Tuesday, September 5, 2023 through electronic mode to all the members whose email IDs are registered with the Company/depository participant(s). These documents are also available on the Company's website at www.vikasecotech.com

Also, in compliance with Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members will remain closed from September 23, 2023 to September 29, 2023 (both days inclusive). Pursuant to provisions of section 108 of the Act read with rule 20 of the Companies

(Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEB circular dated 9 December, 2020, members holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date, i.e., September 22, 2023, may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of 38th AGM through e-voting platform. The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the Notice of 38thAGM of the Company In this regard, the members are hereby further notified that:

 The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means in the Annual General Meeting is September 22, 2023.

The remote E-voting period will commence from September 26, 2023 at 9:00 A.M. (IST) and will end on September 28, 2023 at 5:00 P.M.(IST). Remote E-voting shall

not be allowed beyond the aforesaid period. The persons who have acquired shares and have become member of the Company after the dispatch of notice may obtain the login ID and password from

Bigshare Services Private Limited on the help desk No. 1800 22 54orsend an e-mail to ivote@bigshareonline.com A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote E-voting as well as voting in the general

Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM facility, but shall not be allowed to cast their votes again at the AGM.

addresses are not registered with the Company/RTA/DP is available in the AGM The details of Scrutinizer and procedure for Speaker Registration are provided in

The manner of registration of email addresses of those members whose email

f you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') available at https://ivote.bigshareonline.com, under download section or you can email us to ivote@bigshareonline.com or call us at: 1800 22 54 22. For Vikas Ecotech Limited

Date: September 5, 2023

Place: New Delhi

Managing Director

(DIN: 00255413)

दक्षिण रेलवे

सामग्री प्रबंध विभाग नीलामी कार्यक्रम

कोचेज एवं लोकोज, स्क्रैप रैल्स तथा अन्य पर्मानेन्ट वे स्क्रैप सामग्री के निपटारे के लिये

ई-नीलामी आयोजित की जाएगी।

सूचना सं. 10/2023 भारत के राष्ट्रपति की ओर से फेरस स्क्रैप, नान-फेरस स्क्रैप, अन्य विविध स्क्रैप, कंडम्ड वैगन,

माह अक्टूबर 23 के लिये नीलामी की तिथि क्र. ई-नीलामी का सामग्री ासं. ∣संचालन, द्वारा GSD/PER |10.10.2023 |18.10.2023 |25.10.2023 |31.10.2023 ई-नीलामी में CSSD/GOC | 09.10.2023 | 17.10.2023 | 26.10.2023 | 31.10.2023 बिकी की जाने 05.10.2023 | 13.10.2023 | 27.10.2023 वाली मदों का MAS Division | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 25.10.2023 | 31.10.2023 विवरण SA Division | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 25.10.2023 www.ireps. 6 TVC Division 03.10.2023 11.10.2023 19.10.2023 27.10.2023 gov.in वेबसाईट में 7 PGT Division | 05.10.2023 | 13.10.2023 | 20.10.2023 | 30.10.2023 विवरिणका में 8 TPJ Division 04.10.2023 12.10.2023 20.10.2023 उपलब्ध होगा। 9 MDU Division 04.10.2023 12.10.2023 20.10.2023 माह अक्टबर 23 के लिये नीलामी की कल सं.-32 नग

टिप्पणी: अधिशेष डीजल लॉकोज की ''जैसा है जहां है शर्त'' पर बिक्री की जाएगी। विस्तृत नियमों एवं

शर्तों तथा विवरणिका डाउनलोड करने के लिये कृपया हमारी वेबसाईट https://www.ireps.gov.in > E-Auction-> Sale->Live Auction देखें।

प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक

नीलामी की

# Follow us on : twitter.com/GMSRailway

आर्किडप्लाई डेकोर लिभिटेड (सीआईएन: L20231UR2017PLC008626)

पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं. ७, सेक्टर-७, इन्टीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, सिडकुल, पंतनगर,

ऊधम सिंह नगर, रुद्रपुर, उत्तराखंड—263153, दूरभाषः 05944—250270, फैक्सः 05944—250269 कॉर्पो. कार्यालय: भूतल, एलिक्सिर, चांसरी पैवेलियन, 135 रेजीडेंसी रोड, बेंगलुरू: 560025

दूरभाषः 08043714281, वेबसाइट www.archidplydecor.com, ई-मेल : bangalore@archidply.com

एजीएम, ई-वोटिंग तथा बुक क्लोजर की सूचना एतद्दवारा सचित किया जाता है कि आर्किङप्लाई डेकोर लिमिटेड के सदस्यों की छठवीं (6वीं) वार्षिक आम सभ शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 को 12.30 बजे अप. में इसके पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं.7, सेक्टर—9, इन्टीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इस्टेटस, सिडकुल, पंतनगर, ऊधम सिंह नगर, रुद्रपुर, उत्तराखंड–263153 में आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। एतद्वारा यह सचना भी दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 तथा कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन)

नियमावली, 2014, समय–समय पर यथा–संशोधित के अनुपालन में उपर्युक्त एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ रविवार, 24 सितम्बर, 2023 से शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी। वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 के साथ छठवीं (6वीं)ं एजीएम की सुचना इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी

जा चुकी है, जिनके ईमेल पते कंपनीधंडिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं और भौतिक प्रतियां उन सदस्यों को भेजी गयी हैं जिनके ईमेल पते कंपनीध्डिपॉजिटरी के पास उपलब्ध नहीं हैं। कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 तथा समय—समय पर यथा—संशोधित सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के

विनियमन 44 के अनुपालन में यह कम्पनी उपर्युक्त एजीएम में विचार किये जाने वाले सभी प्रस्तावों पर

इलेक्टॉनिक रूप से अपना मतदान करने के लिये अपने सदस्यों को सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रावधानित रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष उपलब्ध करा रही है। आगे. पोल/बैलट पेपर के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध होगी। एजीएम में उपस्थित होने वाले वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किया है वे पोल/बैलट पेपर के माध्यम से बैठक में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। कम्पनी की एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम द्वारा मतदान की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जायेगी।

स्वच्छ तथा पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग तथा रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में ई–वोटिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिये श्री रजनीश शर्मा, मैसर्स रजनीश शर्मा एंड कं, के प्रॉप्नाईटर, कम्पनी सचिव को संवीक्षक नियक्त सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

कम्पनी की 6वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य तथा विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान तथा एजीएम में पोलध्पोस्टल बैलट पेपर के माध्यम से सम्पन्न होंगे। . रिमोट ई—वोटिंग 27 सितम्बर, 2023 को (10.00 बजे पूर्वा.) में शुरू होगी तथा 29 सितम्बर, 2023 को

iii. कट—ऑफ तिथि 23 सितम्बर, 2023 है iv. यदि कोई व्यक्ति शेयर अर्जित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2023 को शेयर्स धारित करता है, व helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या अपने फोलियो नं./डीपी आईडी नं. का

उल्लेख करते हुए 022-23058542/43 पर कॉल कर लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करके रिमोट

ई-वोटिंग कर सकते हैं। किन्तु यदि ऐसे शेयरधारक पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग हेतु" [आरटीए/डीपी]

के साथ पंजीकृत हैं तो वे मतदान करने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर

### सदस्य कृपया ध्यान दें कि

प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे,

(5.00 बजे अप.) में बंद होगी,

क. 29 सितम्बर, 2023 (5.00 बजे अप. भा.मा.स.) के उपरान्त रिमोट ई—वोटिंग की अनुमति नहीं होगी ख. ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा कम्पनी की एजीएम में उपलब्ध कराई जायेगी और एजीएम में उपस्थित होने वाले जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले मतदान नहीं किया है वे एजीएम में पोल/बैलट पेपर के माध्यम से मतदान करने में सक्षम होंगे।

ग रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग करने के पश्चात भी कोई सदस्य एजीएम में भाग ले सकता है किन्तु उसे दुबारा मतदान की अनुमति नहीं होगी। घ. केवल ऐसे व्यक्ति जिनके नाम कट-ऑफ अर्थात 23 सितम्बर, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर य डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों की सूची में दर्ज होंगे, वे ही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा

vi. कम्पनी की 6वीएजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट (Swww.archidplydecor.com) तथा सीडीएसएल की वेबसाइट( www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध होगी। vii. एजीएम से पूर्व या उसके दौरान किसी भी प्रश्नों के लिये आप www.evotingindia.com पर सहायता खंड के अंतर्गत उपलब्ध सदस्यों के लिये Frequently Asked Questions (FAQs) तथा e-voting user manual देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें या श्री नितिन

कुण्डेर (022–23058738) अथवा श्री मेहबूब लखानी (022–23058543) या श्री राकेश डाल्वी (022-23058542) से सम्पर्क करें। viii. ई–वोटिंग से सम्बन्धित विस्तृत निर्देशों के लिए सदस्य कृपया वार्षिक आम बैठक की नोटिस में 'नोट्स'

खण्ड का सन्दर्भ लें।

आर्किडप्लाई डेकोर लिमिटेड के लिये स्थानरू बेंगलुरू शिवा किरन मवूरी तिथिरू 05.09.2023 कम्पनी सचिव

इंडियन ओवरसीज बेंक

5, नेताजी सुभाष मार्ग, दरिया गंज, नई दिल्ली-110 002 सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप-धारा 2 के अंतर्गत उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं / गारंटरों हेतु मांग सूचना

स्थान : दिल्ली दिनांक : 22.08.2023

श्री अमित पाल सिंह पुत्र गुरचरण सिंह निवासी बी-4 बायीं ओर का भाग मानसरोवर गार्डन दिल्ली-110015 प्तंदर्भ : इंडियन ओवरसीज बैंक, दरिया गंज शाखा के पास आपकी ऋण सुविधायें।

आप, उपरोक्त नामित उधारकर्ताओं ने हमारी दरिया गंज शाखा से निम्नलिखित ऋण सविधायें बकाया देयराशियों के साथ ऋण सुविधाओं के विवरण निम्नानुसार हैं :

कुल देयराशियां\* 22.08.2023 के अनुसार (रु. में) ₹. 39,51,590 / -001703452000066 ਓ. 39,51,590 ∕ −

\*संविदागत दरों / शेषों पर भावी ब्याज के साथ राशि, उपरोक्त अंकित तिथि से भगतान की तिथि तक

ऋण सुविधायें, उधारकर्ता सं. 1 के नाम में दृष्टिबंधन के माध्यम से निम्न वर्णित परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभत थीं। आपने, अपने द्वारा निष्पादित विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से निम्नलिखित लेन–देन के तहत देनदारियों की समय-समय पर पावती स्वीकार की है। 2. उपर्युक्त ऋण सुविधाओं के लिये बैंक के पक्ष में प्रतिभृतियों के विवरण इस प्रकार हैं

प्रतिभूतियों के विवरण (अवस्थिति के साथ पूर्ण विवरण, चार सीमायें, चार दिशाओं पर मापन, कुल विस्तार तथा स्वामी का नाम जो प्रविष्ट किया जाना है) कार टोयोटा फॉर्च्यूनर प्लेटिनम व्हाइट पर्ल का दृष्टिबंधन

पंजीकरण सं: DL8CBE5991

चेसिस नं: MBJAA3GS100577686~1122

इंजन संख्या : 1GDA690941 अधिकार सुरक्षित है। 3. उपर्युक्त नामित उधारकर्ताओं द्वारा अनुबंधित शर्तों के अनुसार मूल ऋण / ब्याज के भुगतान में चूक किये जाने के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनसार 29.07.2023 ( एनपीए के रूप में वर्गीकरण की तिथि) को अनार्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया

गया है। आपके खाते के नियमितीकरण के लिये हमारे अनुस्मारकों के बाद भी, आप ने अतिदेय ऋणों का उन पर नियत ब्याज सहित प्रतिभूगतान नहीं किया है। चुंकि आप उपरोक्त नामित उधारकर्तागण, जिन्हें क्र. सं. 1 के तहत संदर्भित किया गया है, यहां ऊपर उल्लिखित विभिन्न प्रतिभतियों द्वारा विधिवत सरक्षित ऋण सविधाओं के संबंध में देनदारियों को परा करने में विफल रहे हैं और आपके खाते को अनार्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किये जाने पर, हम एतद्द्वार आप में से नंबर 1 को दिये गये अपने अग्रिमों को वापस लेने का आहवान करते हैं और वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के तहत आपको सुचित करते हैं और आपको इस सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर,

उपरोक्त पैरा 1 में विवरणितानुसार रु. 39,51,590 / – का, उपरोक्त अंकित तिथि से, अनुबंधितानुसार मासिक शेषों के साथ चक्रवृद्धिकृत पैराग्राफ । में अंकित आरओआई की दर पर भावी ब्याज के साथ पूर्ण भुगतान करने और अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए कहते हैं। 5. हम आगे उधारकर्ता नामतः श्री अमित पाल सिंह पुत्र गुरचरण सिंह (दृष्टिबंधककर्ता) को सूचित करते हैं, जिन्होंने सरफॉएसि अधिनियम के तहत प्रवर्तनयोग्य गैर-कृषि-प्रतिभृतियों को दिया है और जो कि भुगतान की तिथि तक ब्याज और शुल्कों इत्यादि के साथ उपरोक्त राशि का पूर्ण भुगतान करने में विफल हो चुके

हैं, हम उनके विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत हमारे पास निहित सभी अधिकारों अथवा उनमें से किसी एक अधिकार का प्रयोग करेंगे। 6. कुपया ध्यान दें कि विधि के अंतर्गत उधारकर्ताओं को पृथक रूप में भावी ब्याज तथा शुल्कों इत्यादि के

साथ बकाया देयराशियों का प्रतिभूगता करना है। 7. कृपया ध्यान दें कि ब्याज जो है वह पूर्ण प्रतिभूगतान होने तक प्रत्येक ऋण सुविधा हेतू अनुबंधितानुसार

दरों एवं शेषों पर निरंतर उपार्जित होता रहेगा। 8. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (13) की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार आपको, हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किये बिना, ऊपर निर्दिष्ट किसी भी सुरक्षित संपत्ति को बिक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित करने/अलग करने/स्थानांतरित करने से रोका जाता है।

अनुपालन न करना / उनका उल्लंघन करना एक अपराध है, जो अधिनियम की धारा 29 के तहत कारावार और / या जुर्माना के साथ दंडनीय है। हम आप सभी को यह भी सूचित करते हैं कि यदि खाते को निर्धारित समय के भीतर नियमित नहीं किया

कृपया यह भी ध्यान दें कि उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों का

जाता है / चुकाया नहीं जाता है और यदि बैंक आपको भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत कर रहा है, तो इस स्थिति में बैंक, वसूली के लिये बैंक के पास उपलब्ध सभी उपायों को शुरू करने के अलावा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके नाम, पते, चूक के विवरण, देय राशि, इत्यादि के साथ समाचार-पत्र(त्रों) में आपकी फोटो प्रकाशित करने का अधिकार सूरक्षित रखता है।

0. हम आपको यह भी सलाह देते हैं कि यह मांग सूचना बिना किसी पूर्वाग्रह के है और इसे किसी भी अन्य अधिकार या उपचार की छट के रूप में नहीं माना जाएगा जो कि उपरोक्त बकाया राशि की वसली के साथ-साथ आपके द्वारा देय एवं भगतानयोग्य बकाया राशि के संबंध में आगे की मांग करने के हमारे

अधिकार के रूप में हमारे पास है। 1. इसके अतिरिक्त, आपका ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए आपके पास उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

प्राधिकृत अधिकारी

www.readwhere.com